



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 15—जनवरी 21, 2017, शनिवार/पौष 25—माघ 1, 1938

No. 03] NEW DELHI, JANUARY 15—JANUARY 21, 2017, SATURDAY/PAUSA 25—MAGHA 1, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 21st December, 2016

**G.S.R.10.**— In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 146 of the Constitution, the Chief Justice of India hereby makes the following amendment to the Supreme Court Officers and Servants (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1961 :-

1. The following be substituted in Column Nos. 4 and 5 – against the post of Senior Personal Assistant – Category No. 37 :-

Method of Recruitment <u>Column No. 4</u>	Experience, if any <u>Column No. 5</u>
By direct recruitment	--
OR	
By Limited Departmental Examination	--
OR	

By promotion of Personal Assistants on the basis of seniority  
(To the extent of 10 % of the cadre strength of Senior Personal Assistants)

-- Minimum 20 years experience in the cadre of Personal Assistant in case of promotion

[No. F.-34/2016-SCA (I)]

By Order,

R. N. NIJHAWAN, Registrar (Admn. J)

## वित्त मंत्रालय

### (व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 11** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

**5. शिथिल करने की शक्ति-** जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

**6. व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निजी सचिव	78* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय।	स्तर - 7 (44900-142400 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत लघुकाल संविदा भी हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

**प्रोन्नति :-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35,400-1,12,400 रु.) में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-1 जिसने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

**टिप्पण 1 :** अधिकारी, जो 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वेतनमान 5500-9000 रु. में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए थे, वे पुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 रु. में पद धारण किए हुए अधिकारियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे।

**टिप्पण 2 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति/जिसके अंतर्गत लघु काल संविदा भी हैं :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्धसरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधिकारी :-

- जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हों।

**टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संविदा हैं की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संविदा हैं की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संविदा हैं द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संविदा हैं के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. महानिदेशक / प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा की पंक्ति का संवेग नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ निदेशक/ उपमहालेखाकार/ उपनिदेशक प्रभारी प्रशासन - सदस्य 3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ निदेशक/ उपमहालेखाकार/ उपनिदेशक - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12018/03/2012-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Expenditure)

New Delhi, the 11th January, 2017

**G.S.R.11 .—**In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the post of Private Secretary, namely:-

- Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix. -** The number of posts, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Private Secretary.	78* (2017)  * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group B Gazetted, Ministerial.	Level 7. (Rupees 44900-142400)	Selection.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion failing which by deputation including short term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographer Grade-I in Level 6 (Rupees 35400-112400) of Pay Matrix with five year's regular service in the grade and have successfully completed two weeks mandatory training in the relevant area from the institute(s) specified by the Department.</p> <p><b>Note 1:</b></p> <p>Officers who were holding the post in Pre-revised Scale of Rupees 5500-9000 on regular basis on 1st January, 2006 will be en-bloc senior to those who were holding posts in the pre-revised scale of Rupees 5000-8000.</p> <p><b>Note 2:</b></p> <p>Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p><b>Deputation /including short term contract (ISTC):</b></p> <p>Officers of the Central Government/State Government/Union territories/Recognised Research Institutions/Universities/Public Sector Undertakings/Semi Government/</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cadre Controlling Officer in the rank of Director General/Principal Accountant General / Accountant General/ Principal Director of Audit -Chairman</li> <li>2. Senior Deputy Accountant General/Director/Deputy Accountant General/Deputy Director in-charge of administration. -Member</li> <li>3. Senior Deputy Accountant General/Director/Deputy Accountant General/Deputy Director -Member</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	<p>Statutory or Autonomous Organisations-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five year's regular service in the Stenographers Grade-I in Level 6 (Rupees 35400-112400) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 3:</b> For the purpose of appointment on deputation (ISTC) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the Pay commission.</p>		
--	---	--	--

[F. No. A-12018/03/2012-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

**सा.का.नि.12.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र की प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची के,-

(i) स्तम्भ 4 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“स्तर-7”

(ii) स्तम्भ 11 में-

(क) प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, “वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ग्रेड वेतन 4200 रूपए के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 2 में शब्दों और अंकों “प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी” शब्दों और अंकों के स्थान पर “प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी” शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

(ग) क्रम संख्या (ii) के सामने शीर्षक प्रतिनियुक्ति के अधीन “वेतन बैंड-2 (9300-34800)+ग्रेड वेतन 4200 रूपए” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।”

[फा.सं. 21/10/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

अजय कुमार, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 247 द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2015 को प्रकाशित हुए थे।

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 9th January, 2017

**G.S.R.12.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Translator Recruitment Rules, 2015 namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Senior Translator Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Translator Recruitment Rules, 2016, -

(i) in column 4,-

(a) for the heading the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the Pay Matrix”;

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-7”

(ii) in column 11,-

(a) under the heading Promotion, for the words, letters and figures “Pay band 2, (Rs.9300-34800) and grade pay of Rs.4200 with five years regular service in the grade” the words and figure “Level-6 in the Pay Matrix” shall be substituted;



- (b) in **Note 2**, for the words and figures “1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission” the words and figure “1st January, 2016, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission” shall be substituted;
- (c) under the heading Deputation against the serial number(ii) for the words letters and figures in Pay Band 2, (Rs.9300-34800) with grade pay Rs.4200”, the words and figures “Level-6 in the Pay Matrix” shall be substituted.

[F.No.21/10/2016-CGWB]

AJAY KUMAR, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 247 dated the 26th December, 2015.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

**सा.का.नि.13.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कनिष्ठ अनुवादक, भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कनिष्ठ अनुवादक, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कनिष्ठ अनुवादक, भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची के, स्तंभ (4) में,-  
(क) स्तम्भ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-  
“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;  
(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-  
“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6”।

[फा.सं. 21/09/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

अजय कुमार, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं.-24 द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2016 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 9th January, 2017

**G.S.R. 13.-** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Junior Translator Recruitment Rules, 2016 namely:-

- (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Junior Translator Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Junior Translator Recruitment Rules, 2016, in the Schedule,- in Column (4),-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-  
“LEVEL in the PAY MATRIX”;

(b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
“Level-6 in the pay matrix”.

[F.No.21/09/2016-CGWB]

AJAY KUMAR, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, vide number GSR 24 dated the 20th February, 2016.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

**सा.का.नि.14.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम 2016, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, मुख्य नक्शानवीस भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(ii) ये प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. जल संसाधन मंत्रालय, में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2016, में अनुसूची के,-

**(i) स्तम्भ-4 में-**

(क) स्तम्भ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900/-रु.)”

**(ii) “स्तम्भ-11 में,-**

(क) “प्रोन्नति”, शीर्षक के अधीन शब्दों, अंकों और अक्षरों “वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. में ऐसे नक्शानवीस जिन्होंने 4200रु. ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है” के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रु.) में ऐसे नक्शानवीस, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है” शब्दों अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ख) मद (क) की उपमद (ii) में “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)” शीर्षक के अधीन शब्दों, अंकों और अक्षरों “जिन्होंने वेतन बैंड 2(रुपए 9300-34800)+ग्रेड वेतन-4200 रु. पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और “ के स्थान पर “जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, और” शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 21/07/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

अजय कुमार, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं.-72 द्वारा तारीख 6 मई, 2016 को प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 9th January, 2017

**G.S.R.14.-** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Chief Draftsman Recruitment Rules, 2016 namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, **Chief Draftsman Recruitment (Amendment) Rules, 2017.**  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Chief Draftsman Recruitment Rules, 2016, in the Schedule,-
  - (i) in column 4,-
    - (a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-  
**“Level in pay matrix”;**
    - (b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
**“Level-7 (Rs.44900) in the pay matrix”;**
  - (ii) “in column 11,-
    - (a) under the heading “**Promotion**”, for the words, figures and letters “Draftsman in the Pay band 2, Rs.9300-34800 with five years regular service in the grade pay of Rs.4200”, the words, figure, brackets and letters **“Draftsman in level-6(Rs.35400) in the pay matrix with five years regular service in the grade”** shall be substituted;
    - (b) under the heading “**Deputation (including short term contract)**”, in sub-item (ii) of item (a) for the words, figures and letters “Pay Band-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200”, the words, figures, brackets and letters **“with five years regular service in the posts in level-6 (Rs.35400) in the pay matrix”** shall be substituted.

[F.No.21/07/2016-CGWB]

AJAY KUMAR, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 72, dated the 6th May, 2016

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)**

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

**सा.का.नि.15.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग(वरिष्ठ तकनीकी सहायक)भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वरिष्ठ तकनीकी सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (वरिष्ठ तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 2015 में:-

(1) नियम 2 में, “**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**” शब्दों के स्थान पर जहां-जहां दोनो स्थानों पर आते हैं, के स्थान पर “**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**” शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

**“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”**

(ख) निम्नलिखित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

**“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)”;**

[फा. सं. 19-12/2012-ए.ई.1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सा.का.नि.325 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र असधारण, भाग—II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

### (Department of School Education and Literacy)

New Delhi, the 9th January, 2017

**G.S.R.15 (E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy (Senior Technical Assistant), Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy (Senior Technical Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, the Directorate of Adult Education, the Department of School Education and Literacy (Senior Technical Assistant) Recruitment Rule, 2015, -

(1) In rule 2, for the words, “pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4), -

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely;

“Level in the pay matrix”;

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely:-

“Level, 6(Rs.35400-112400) in the Pay Matrix”.

[F. No.19-12/2012-A.E.I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i) vide Notification Number G.S.R. 325(E) dated the 27th April, 2015.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

**सा.का.नि.16.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, बहु कार्य कर्मचारिवृंद, समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद समूह ‘ग’ पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, बहु कार्य कर्मचारिवृंद समूह ‘ग’ भर्ती नियम, 2015 में:-

(1) नियम 2 में, “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” दोनो स्थानों पर जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:—

**“वेतन मैट्रिक्स में स्तर—1 (18000-56900 रुपये)”;**

[फा. सं. 19-4/2015 ए.ई.1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र भाग—II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 140 तारीख 4 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 9th January, 2017

**G.S.R.16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education & Literacy, Directorate of Adult Education, Multi Tasking Staff, Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Directorate of Adult Education, Multi Tasking Staff, Group ‘C’ post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Directorate of Adult Education, Multi Tasking Staff, Group ‘C’ post, Recruitment Rules, 2015,-

(1) In Rule 2, for the words, “ pay band and grade pay or pay scale” at both the places where they occur, the words “Level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

“LEVEL in the PAY MATRIX”;

(b) for the entries the following entries shall be substituted, namely;

“LEVEL 1(Rs.18000-56900) in the Pay Matrix”.

[F. No. 19-4/2015-A.E.I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub-section (i) vide Notification Nounber G.S.R. 140 dated the 4th August, 2015.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 17 .**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में पुस्तकालय लिपिक भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में पुस्तकालय लिपिक भर्ती (संशोधन )नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में पुस्तकालय लिपिक भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में:-**

(क) (1) नियम 2 में शब्दों के स्थान पर **“वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान”**, दोनो स्थानों पर जहां—जहां आते हैं, **“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”** शब्द रखे जाएंगे ।

(2) अनुसूची के स्तंभ 4 में,—

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा; अर्थात्—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी; अर्थात्—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर—2 (19900-63200 रुपये)”;

(ख) “स्तंभ 11” में:-

प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन बैंड—1, 5200—20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1800 रु०” “प्रविष्टियां” “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—1 (18000-56900 रुपये)” रखा जाएगा ।

[फा. सं. 19-17/2014-ए.ई. 1]

जुगलाल सिंह, उप सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम अधिसूचना सा.का.नि.24 तारीख 9 फरवरी, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए ।

New Delhi, the 16th January, 2017

**G.S.R. 17.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Library Clerk, Recruitment Rules, 2015, namely :-

1. Short title & commencement,—(1) These rules may be called the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy Library Clerk, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Adult Education, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, Library Clerk, Recruitment Rule, 2015, in the Schedule:-

(a) (1) In Rule 2, for the words, “pay band and grade pay or pay scale” at both the places where they occur, the words “Level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule, in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

“Level in the pay matrix”;

(ii) for the entries the following entries shall be substituted, namely;

“Level 2(Rs.19900-63200) in the Pay Matrix”.

(b) “In column (11),-

for the entry in” the Pay Band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1800”, the entries “ Level-1 (Rs.18000-56900) in the Pay Matrix” shall be substituted.

[F. No. 19-17/2014-A.E.I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India , Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Nounber GSR. 24 dated the 9th February, 2015.

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****(वाणिज्य विभाग)****(पूर्ति प्रभाग)**

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

**सा.का.नि.18.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन), श्रेणी-II भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन), श्रेणी-2 (संशोधन) नियम, 2016 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, सहायक निदेशक (गुणता आश्वासन), श्रेणी-2 भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा।

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान :- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल या उससे संबद्ध वेतनमान, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, —

(क) स्तंभ 4 में —

अ. शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान”

आ. विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स रु. 44900 – 142400 में स्तर 7”

(ख) स्तंभ 10 में —

अ. टिप्पण 1 में, “वेतन बैण्ड-2 रु. 9300-34800 + श्रेणी वेतन रु. 4200” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स रु. 35400 – 112400 में स्तर 6”

आ. टिप्पण 2 की मद (ii) में, “वेतन बैण्ड-2 रु. 9300 – 34800 + श्रेणी वेतन रु. 4200” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स रु. 35400 – 112400 में स्तर 6”

[फा. सं. ए-12028/4/2016/प्रशा. II]

परिमल करण, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड 3(i), उपखण्ड (i) में सा. का. नि. 622(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(SUPPLY DIVISION)**

New Delhi, the 9th January, 2017

**G.S.R.18.** – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Supplies and Disposals, Assistant Director (Quality Assurance), Grade II Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals, Assistant Director (Quality Assurance), Grade II (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Directorate General of Supplies and Disposals, Assistant Director (Quality Assurance), Grade II Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.- The number of post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the said rules, in the Schedule,—

(a) in column (4),—

A. for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix or pay scale.”

B. for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Level 7 in the pay matrix Rs. 44900 – 142400.

(b) in column (10),—

A. in Note 1, for the words, figures and letters “Pay Band-2 Rs. 9300 – 34800 with Grade Pay of Rs. 4200”, the following words and figures shall be substituted, namely:-

“level 6 in the pay matrix Rs. 35400 - 112400”;

B. in Note 2, in item (ii), for the words, figures and letters “Pay Band-2 Rs. 9300 – 34800 plus grade pay of Rs. 4200”, the following words and figures shall be substituted, namely:-

“level 6 in the pay matrix Rs. 35400 – 112400.”

[F. No. A-12028/2/2016/A-II]

PARIMAL KARAN, Under Secy

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3 (i), sub section (i) vide number G.S.R. 622(E) dated the 9th September, 2013.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

**सा. का. नि. 19.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय आशुलिपिक श्रेणी-2 पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ- (1) इन नियमों का नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय आशुलिपिक ग्रेड-2 पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय आशुलिपिक ग्रेड-2 पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे।

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक विनिर्दिष्ट है।

3. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ 4 में —

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”



(ख) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स रु. 25500 – 81100 में स्तर 4”

[फा. सं. ए- 12018/3/2016/प्रशा.समन्वय.(पार्ट)]

परिमल करण, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 14 (अ.), तारीख 11 जनवरी, 2016 द्वारा तारीख 17 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 10th January, 2017

**G.S.R. 19 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Directorate General of Supplies and Disposals, Regional Offices, Stenographer Grade–II Posts Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Directorate General of Supplies and Disposals, Regional Offices, Stenographer Grade–II Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Directorate General of Supplies and Disposals, Regional Offices, Stenographer Grade–II Posts Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification, level in the pay matrix.- The number of the said post, its classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

3. In the said rules, in the Schedule, in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix.”;

(ii) for the existing entry, the following shall be substituted, namely:-

“Level 4 in the pay matrix (₹25500 – 81100).”.

[F. No. A-12018/3/2016/Admn.Coordn.(Pt.)]

PARIMAL KARAN, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 17th January, 2016, *vide* notification number G.S.R. 14 (E) dated the 11th January, 2016.